

(a) the amount earmarked for the purpose of industrial development of backward Districts of Orissa ; and

(b) the nature of industries proposed to be started ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI GHANSHYAM OZA) : (a) and (b). Funds have been set apart for the country as a whole for the 10 per cent investment subsidy allowed, subject to certain conditions, to new industries set up in selected backward districts. Industries which may be set up in the two backward districts of Orissa, viz. Kalahandi and Mayurbhanj, will also be entitled to the 10 per cent investment grant if they qualify under that scheme. In addition to this, the State Government are providing financial assistance under the State-Aid to Industries Act on a priority basis to industries in the backward areas of Orissa.

Concessional finance from financing institutions is available for industries set up in the following backward districts of Orissa :

Bolangir, Mayurbhanj, Dhenkanal, Kalahandi, Balasore, Koonjhar, Koraput and Phulbani.

The State Government have surveyed the districts of Balasore, Koraput, Kalahandi and Bolangir to assess the industrial potential of these districts. The Industrial Development Bank of India have also carried out a survey of the State and a report has been submitted to the State Government. It is expected that the State agencies and entrepreneurs would take advantage of these survey reports and set up industries in the backward areas of Orissa.

केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा में पदोन्नति का प्रभाव

448. डा० संकटा प्रसाद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आधु-

निक सेवा के आधुनिकों को, जिनका वेतन क्रम 210-530 रुपये है, पदोन्नति के लिये किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है जिसमें इस श्रेणी के लिये पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है ;

(ख) क्या सरकार इस श्रेणी को पदोन्नति के अवसर देने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं, और यदि कोई उपाय ही किये गये, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय और कामिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्जा) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा में निम्न 4 ग्रेड शामिल हैं :

ग्रेड-III	...	130-280 रुपये
ग्रेड-II	...	210-530 रुपये
ग्रेड-I	...	350-770 रुपये
प्रवरण ग्रेड	...	350-900 रुपये

इस सेवा के ग्रेड-I तथा प्रवरण ग्रेड में सभी पदों को वरिष्ठता का यथोचित ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस समय ग्रेड-1 प्रवरण ग्रेड से पदों को भरने के लिए विभागीय प्रतियोगित परीक्षा के आधार पर किसी प्रतिशतता की व्यवस्था नहीं है।

1-8-1969 से केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप सेवा में ग्रेड-I वेतनमान में धारण बड़ोतरी, ग्रेड-I के पदों की संख्या में वृद्धि और प्रवरण ग्रेड के बालू हो जाने से सदस्यों के लिए पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है।

Setting up of Atomic Plants in the Country

449. SHRI B.K. DASCHOWDHURY :